

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 45: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2025		2026	वि.व. 2024-25	2025		2026
		जन.	दिसं.	जन.		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	47.40	4.88	5.07	4.35	296218030	30296790	34813891	32155354
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	17.87	1.77	1.71	1.61	185733719	17807347	20459216	18709470
1.1.1 आउटराइट	10.56	1.10	0.94	0.90	16056018	1627265	1358772	1235356
1.1.2 रेपो	4.72	0.41	0.51	0.46	77286611	7288494	9176297	7775968
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.25	0.26	0.25	92391091	8891588	9924147	9698147
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.94	3.27	2.64	100639565	11164125	13484010	12450917
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.46	0.17	0.10	0.10	9844746	1325318	870666	994967
बी. भुगतान प्रणाली								
1 वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	3024.55	268.15	317.67	316.99	201387682	17499363	21969481	19176704
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	266.89	316.41	315.76	181153129	15571748	19992108	17580604
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	14.23	1.26	1.26	1.23	20234553	1927615	1977373	1596100
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	2061014.91	186538.41	232522.27	233364.66	79881976	7000487	8086110	8078680
2.1 ईपीएस (निधि अंतरण) @	3.64	0.31	0.21	0.24	190	18	12	14
2.2 एपीबीएस \$	32964.43	2263.21	2357.78	2616.49	554034	52280	81224	81195
2.3 आईएमपीएस	56249.68	4442.23	3799.33	3740.33	7139110	606420	662452	672989
2.4 एनएसीएच जमा \$	16938.86	1304.72	1240.69	1248.95	1670223	145699	168800	161580
2.5 एनईएफटी	96198.05	8567.93	8777.58	8724.20	44461464	3848033	4376909	4329421
2.6 यूपीआई @	1858660.25	169960.01	216346.68	217034.45	26056955	2348037	2796713	2833481
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.38	0.52	1.14	185	16	5	12
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	21659.95	1878.45	2012.39	2016.80	2208583	199535	242667	240345
3.1 भीम आधार पे @	230.08	15.79	17.39	17.87	6907	486	600	648
3.2 एनएसीएच नामे \$	19762.28	1715.83	1858.15	1865.64	2199327	198857	241878	239514
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1667.59	146.83	136.85	133.29	2349	193	189	184
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63861.15	5522.42	6447.58	6415.41	2605110	223090	241961	237042
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	47740.76	4305.72	5398.34	5397.11	2109197	184126	204687	199085
4.1.1 पीओएस आधारित \$	24571.10	2177.43	2726.32	2674.95	795022	69429	78476	75988
4.1.2 अन्य \$	23169.66	2128.29	2672.02	2722.16	1314175	114697	126210	123097
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	16120.39	1216.69	1049.24	1018.29	495914	38963	37274	37957
4.2.1 पीओएस आधारित \$	11980.33	910.91	794.35	773.20	332556	25999	24599	25513
4.2.2 अन्य \$	4140.06	305.78	254.89	245.10	163358	12965	12675	12444
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	70254.08	6547.10	9755.15	9537.91	216751	19496	27044	27626
5.1 वॉलेट	52898.40	4875.14	8094.62	7716.41	154066	14700	20834	20985
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	17355.68	1671.97	1660.53	1821.50	62686	4796	6210	6641
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8240.14	701.18	694.23	827.76	11512	1000	1391	1582
5.2.2 अन्य \$	9115.54	970.79	966.30	993.74	51174	3796	4819	5059
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6095.38	516.61	476.39	458.71	7113350	606756	620352	601415
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	516.61	476.39	458.71	7113350	606756	620352	601415
6.2 अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2222885.46	201003.00	251213.79	251793.49	92025771	8049363	9218135	9185108
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2225910.01	201271.14	251531.46	252110.48	293413453	25548726	31187617	28361812
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2219814.63	200754.53	251055.07	251651.77	286300103	24941970	30567264	27760397

भाग II- भुगतान माध्यम और चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2025		2026	वि.व. 2024-25	2025		2026
		जन.	दिसं.	जन.		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	4	5	6	7
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1. मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1756976.91	158794.78	198740.92	199023.23	39206221	3451865	4029352	4120520
1.1 इंस्टाबैंक \$	110801.96	9234.72	10679.51	10652.87	7207439	607541	694233	709038
1.2 अंतर-बैंक \$	1646174.95	149560.06	188061.41	188370.36	31998782	2844325	3335119	3411483
2. इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	47478.09	4167.05	3757.66	3726.69	131858133	11639721	15193135	13905643
2.1 अंतर्बैंक @	13056.37	1212.87	875.29	848.72	69086996	6130804	8063055	7386592
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	2954.18	2882.36	2877.97	62771136	5508917	7130080	6519051
बी. एटीएम								
3. एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	60308.11	4910.07	4469.09	4437.06	3063077	251938	240222	240472
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	97.25	7.79	6.96	6.97	5084	412	393	394
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	59965.70	4883.53	4444.02	4412.00	3046987	250646	238925	239172
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	245.16	18.75	18.11	18.09	11005	879	904	906
4. पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	3.58	0.27	0.14	0.15	37	3	2	2
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	3.33	0.24	0.12	0.12	35	3	2	2
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.25	0.03	0.02	0.02	3	0	0	0
5. माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11640.55	915.09	926.03	956.67	296622	23246	24083	24737
5.1 ईपीएस @	11640.55	915.09	926.03	956.67	296622	23246	24083	24737

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2025 तक	2025		2026
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1. कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	11006.97	10909.12	11501.38	11544.09
1.1 क्रेडिट कार्ड	1098.85	1088.73	1157.92	1166.52
1.2 डेबिट कार्ड	9908.12	9820.39	10343.46	10377.57
2. पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	13401.46	13466.32	20873.16	22053.38
2.1 वॉलेट @	8678.44	8957.73	16170.73	17268.45
2.2 कार्ड @	4723.02	4508.59	4702.43	4784.92
3. एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.56	2.57	2.50	2.52
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.20	2.21	2.13	2.14
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.36	0.36	0.37	0.38
4. माइक्रो एटीएम की संख्या @	14.82	14.74	14.15	13.92
5. पीओएस टर्मिनलों की संख्या	110.98	103.53	114.75	115.25
6. भारत क्यूआर @	67.18	64.43	58.90	57.97
7. यूपीआई क्यूआर *	6579.30	6401.65	7313.65	7384.20

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

#: सहकारी बैंको, एनएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया है जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के बाद से डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तालुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्यूलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

भाग I-ए. निपटान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।

भाग I-बी. भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल हैं।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन छिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।

भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

o बैंको के मोबाइल ऐप्स और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।

o जुलाई 2017 के डेटा में मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।

2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके किए गए वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके किए गए लेनदेन से संबंधित हैं।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (एसबीआई) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।